



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार 22 जनवरी, 2013 / 2 माघ, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 21 जनवरी, 2013

संख्या: ई0एक्स0एन0-एफ(10)-5/2010.—हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्याक 12) से संलग्न अनुसूची 'क' के भाग-2-क में प्रारूप संशोधन को, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 03-10-2012 द्वारा, इससे सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्ति(यों) से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 10 के उपबन्धों के अनुसरण में, ई-गजट, हिमाचल प्रदेश में तारीख 04-10-2012 को प्रकाशित किया गया था;

और इस बाबत नियत अवधि के भीतर कोई भी आक्षेप(पों)/सुझाव(वों) प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची 'क' के भाग-2-क में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची-‘क’ के भाग-2‘क’ में, विद्यमान प्रविष्टि संख्या 110 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“110. ट्रैन्समिशन टावर और ट्रांसफार्मर ।” ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /-
प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान) ।

(Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-5/2010, dated 21st January, 2012 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India.)

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 21st January, 2013

No. EXN-F(10)-5/2010.—Whereas the draft amendment in Part-II-A of Schedule-‘A’ appended to the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005) was notified in accordance with the provisions of section 10 of the Act *ibid* for inviting objections and suggestions from the person(s) likely to be affected thereby, vide this Department Notification of even number, dated 03-10-2012 and published in the e-Gazette, Himachal Pradesh on 04-10-2012;

And whereas no objection/suggestion has been received within the stipulated period in this behalf; Now, therefore, the Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in her under section 10 of the Act *ibid* is pleased to make the following amendments in Part-II-A of Schedule-A appended to the Act *ibid* namely:-

AMENDMENT

In Part-IIA of Schedule-‘A’ of the aforesaid Act, the existing entry no. 110 shall be substituted, namely:-

“110. Transmission Towers **and Transformers**.”.

By order,
Sd/-
Principal Secretary (E&T).

HIMACHAL PRADESH TWELFTH VIDHAN SABHA

NOTIFICATION

Shimla-171004, the 21st January, 2013

No. V.S.-Legn.-Pri/1-1/2013.—The following order by the Governor of the State of Himachal Pradesh, dated the 14th January, 2013 is hereby published for general information :-

हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि वादी श्री नरेश कुमार पुत्र श्री भूप राम, निवासी कड़याह, डा0 शालाघाट, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में अपने पुत्र योग राज की जन्म तिथि 25-3-2011 को पंजीकार के कार्यालय में पंजीकृत करने हेतु प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 दिया है। यदि किसी भी व्यक्ति को इस जन्म तिथि के पंजीकृत करने में एतराज हो तो वह दिनांक 23-1-2013 को या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अपना एतराज लिखित या मौखिक रूप में हाजिर आकर पेश कर सकता है। बाद गुजरने मियाद एतराज काबिले समायत नहीं होगा।

आज दिनांक 4-1-2013 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

अमर सिंह ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री अमर सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, अर्की, जिला सोलन,
हिमाचल प्रदेश

श्री राजेन्द्र कुमार ठाकुर पुत्र श्री बाबू राम, निवासी खाता, डा0 दाड़लाघाट, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
वादी।

बनाम

आम जनता, ग्राम पंचायत दाड़लाघाट, तहसील अर्की

प्रतिवादी।

इश्तहार जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

इश्तहार बनाम आम जनता।

हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि वादी श्री राजेन्द्र कुमार ठाकुर पुत्र श्री बाबू राम, निवासी खाता, डा0 दाड़लाघाट, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में अपने पुत्र मोहित कुमार की जन्म तिथि 3-5-2009 को पंजीकार के कार्यालय में पंजीकृत करने हेतु प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 दिया है। यदि किसी भी व्यक्ति को इस जन्म तिथि के पंजीकृत करने में एतराज हो तो वह दिनांक 23-1-2013 को या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अपना एतराज लिखित या मौखिक रूप में हाजिर आकर पेश कर सकता है। बाद गुजरने मियाद एतराज काबिले समायत नहीं होगा।

आज दिनांक 4-1-2013 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

अमर सिंह ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।